

**@shahjahanpurpol**

**प्रेस नोट: सराहनीय कार्य – दिनांक 28/06/2021**

**थाना खुटार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,**

**अन्तर्जनपदीय शातिर मवैशी व वाहन चोरों को चोरी की योजना बनाते किया गिरफ्तार,**

**पुलिस मुठभेड सहित अन्य अभियोगों में थे वाँछिता**

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्री संजीव कुमार वाजपेई अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के निर्देशन में, श्री नवनीत कुमार नायक क्षेत्राधिकारी पुवायां जनपद शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गठित टीम के सदस्य थानाध्यक्ष श्री जयशंकर सिंह, उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह मय हमराह फोर्स के द्वारा सूचना मुखबिरी के आधार पर समय करीब समय 03.37 बजे घटनास्थल बाबू हरवंश लाल सुपर मार्केट के आफिस के सामने बन रहे नव निर्मित मकान के अन्दर से चोरी की योजना बना रहे अभियुक्तगण 1. सुनील कुमार पुत्र केदारीलाल निवासी नजीरगंज थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत उम्र करीब 24 वर्ष, 2. भोंदा उर्फ फईम पुत्र नन्हे निवासी ग्राम धुल्लिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

अभियुक्त भोंदा उर्फ फईम पुत्र नन्हे निवासी ग्राम धुल्लिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर थाना खुटार के मु०अ०स० 146/2021 धारा 379/411 भादवि का वाँछित अभियुक्त है तथा दिनांक 21.05.2021 को पुलिस मुठभेड के दौरान भोंदा उपरोक्त पुलिस को चकमा देकर भाग गया था जिसके विरुद्ध थाना खुटार पर मु०अ०स० 191/2021 धारा 307/399/402 भादवि पंजीकृत है। तथा भोंदा उर्फ फईम उपरोक्त एक शातिर मवैशी चोर है तथा दिनांक 07.04.2021 को घटित ग्राम कैहमरिया मे मवैशी चोरी करते हुए मौके से फरार हो गया था जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०स० 146/2021 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसके विरुद्ध जनपद व अन्य जनपदों मे करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र केदारीलाल निवासी नजीरगंज थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत उम्र करीब 24 वर्ष, एक शातिर किस्म का वाहन चोर हैं। जिसके विरुद्ध जनपद पीलीभीत मे अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना खुटार पर विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. सुनील कुमार पुत्र केदारीलाल निवासी नजीरगंज थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत उम्र करीब 24 वर्ष,
2. भोंदा उर्फ फईम पुत्र नन्हे निवासी ग्राम धुल्लिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 27 वर्ष

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

1. थानाध्यक्ष श्री जयशंकर सिंह थाना खुटार शाहजहाँपुर
2. उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर
3. हे०का० राजेश यादव थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर
4. का० 747 मोनी कुमार थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर

